



केलकता आइपीएल के मौजूदा सत्र में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली किंग्स इलेवन पंजाब का सामना मंगलवार के पहले क्वालीफायर में केलकता नाइट राइडर्स से होगा जिसने खराब शुरुआत के बाद धमाकेदार वापसी की है। टूर्नामेंट के पहले छह सत्र में अपेक्षा के अनुरूप नहीं खेल सकी किंग्स इलेवन पंजाब इस सत्र के लीग चरण में सबसे उम्दा टीम साबित हुई है। ग्लेन मैक्सवेल और डेविड मलिनर की शानदार बल्लेबाजी के दम पर वह अंक तालिका में शीर्ष पर रही। पहले सात मैचों में सरिफदो जीत दर्ज करने वाली केलकता नाइट राइडर्स के टूर्नामेंट के बीच में ही चुक हुआ मान लिया गया था लेकिन उसने शानदार वापसी करके प्लेआफ में जगह बनाई।

बाद में यूसुफपठान के 22 गेंद में 72 रन की मदद से नेट रनरेट बेहतर करके दूसरा स्थान हासिल किया। केकेआर अब तक रकिर्ड सात जीत दर्ज कर चुकी है। भले ही अब तक के प्रदर्शन के आधार पर पंजाब का पलड़ा भारी लग रहा हो लेकिन केकेआर भी लय हासिल कर चुकी है और जार्ज बेली की टीम के लिये ईडन का किला पत्तह करना आसान नहीं होगा। दोनों टीमों ट्राफी से दो जीत दूर है लेकिन पहला क्वालीफायर हारने पर भी उनका सफ़र खत्म नहीं होगा। हारने वाली टीम के दूसरे क्वालीफायर में मौक मल्लिगा।

{loadposition user13}

यूसुफने साबित कर दिया किलय हासिल करने पर वह कतिना खतरनाक हो सकता है। यहां तक कि दुनिया का नंबर 1 कतेज गेंदबाज डेल स्टेन भी उसके सामने टकनहीं सका। यूसुफने उसके 10 ओवर में 26 रन ले डाले। केकेआर के चेन्नई को पछा कर दूसरे स्थान पर रहने के लिये 15.2 ओवर में 161 रन बनाने थे लेकिन यूसुफकी आक्रामकपारी के बूते उसने लक्ष्य 14.2 ओवर में हासिल कर लिया। यूसुफकी पारी से प्रभावित होकर मुंबई के कोरेण्डरसन ने क्ल 44 गेंद में 95 रन बना। जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस ने नेट रनरेट के आधार पर राजस्थान को पछा।

केकेआर के पास यूसुफपठान और पंजाब के पास मैक्सवेल जैसा बल्लेबाज होने के कारण इस मैच में रनों का अंबार लगने की उम्मीद है। बारशि के कारण मैदान क्ल से कवर के नीचे है और दोनों टीमों मंगलवार के बारशि नहीं होने की दुआ कर रही होंगी। वैसे बारशि होने पर 28 मई के रजिर्व दनि रखा गया है। मौसम के मजिज के देखते हुए धीमे गेंदबाजों की भूमिका अहम हो सकती है और केकेआर के पास स्पनिर सुनील नारायण के रूप में ट्रंपकर्ड है।

नारायण के अलावा उनके पास शाकबि अल हसन भी है। मैक्सवेल इस सत्र में छह बार लेग स्पनिरों का शक्ति हो चुके हैं और शाकबि उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहेंगे। राजस्थान के खिलाफ मैक्सवेल के आराम दिया गया था जिसने पछिली तीन पारियों में सरिफ 16 रन बना। और दल्लि के खिलाफ रविवार की रात शून्य पर आउट हो ग। थें पंजाब के पास मध्यकर्म में डेविड मलिनर, मनन वोहरा, कप्तान बेली और रथिमिान साहा जैसे बल्लेबाज भी हैं।

उनके लिए चिंता का सबब स्पष्ट गेंदबाजी हो सकती है क्योंकि रवि धवन और अक्षय पटेल प्रभावित नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि रविवार को मुरली कार्तिक को उतारा जाय। बल्लेबाजी में पंजाब के लिए पिछले सारे सत्र में शानदार प्रदर्शन करके 2000 से अधिक रन बना चुके शॉन मार्श को मैक्सवेल और मलिन के दमदार प्रदर्शन के कारण बाहर बैठना पड़ा है। इस सत्र में पंजाब को मुंबई इंडियंस के अलावा केकेआर ने मात दी है। घरेलू मैदान पर दर्शकों के समर्थन के बीच केकेआर के हौसले वैसे ही बुलंद रहेंगे।

गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में कोलकाता की टीम संतुलित है। अब तक 14 मैचों में 613 रन बना चुके उसके बल्लेबाज राबिन उथप्पा के पास परपल कैम है जबकि कप्तान गौतम गंभीर ने भी 14 मैचों में 311 रन बनाए हैं। मध्यक्रम में शाकिब, रयान टेन डोइशे और यूसुफ हैं।

मैच रात आठ बजे से खेला जाएगा।

(भाषा)